

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 426]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 जुलाई 2022 — आषाढ़ 15, शक 1944

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 5 जुलाई 2022

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-8/2022/38-2. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्र. 10357/मान्यता/184/2022/17080, दिनांक 31-05-2022, की अनुशंसा अनुसार, भारती विश्वविद्यालय, ग्राम-चंदखुरी, दुर्ग (छत्तीसगढ़) को, नीचे दी गई शर्तों के अनुसार, निम्नांकित नवीन शिक्षण कार्यक्रम पुरःस्थापित करने का अनुमोदन प्रदान करता है :-

1. अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/वास्तु शिल्प/डिजाइन
2. आयुर्वेद/हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग/फार्मसी
3. फाइन आर्ट/परफॉर्मिंग आर्ट/विजुअल आर्ट/एप्लाइड आर्ट
4. पुनर्वास विज्ञान
5. संस्कृत साउन्डिंग डिग्रियों

शर्तें :-

(क) पूर्वोक्त संकायों/पाठ्यक्रमों का संचालन एवं प्रवेश, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उप-धारा (4) के खण्ड (ड) एवं धारा 35 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, पूर्वोक्त संकायों/पाठ्यक्रमों के लिये सुसंगत अध्यादेश जारी करने के पश्चात् ही, प्रारंभ किया जायेगा।

(ख) पूर्वोक्त संकायों/पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व, आवश्यकतानुसार, यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग), नई दिल्ली तथा अन्य केन्द्रीय विनियामक निकायों से पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भुवनेश यादव, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 5 जुलाई 2022

क्रमांक एफ 3-8/2022/38-2. —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5-7-2022 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भुवनेश यादव, सचिव.

Atal Nagar, the 5th July 2022

#### NOTIFICATION

No. F 3-8/2022/38-2. — In exercise of the powers conferred by proviso of sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No.13 of 2005), the State Government, hereby approval to introduce the following new teaching programme as per the recommendation of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur vide its letter No. 10357/Manyata/184/2022/17080, dated 31-05-2022, grants permission to Bharti University, Gram-Chandkhuri, Durg (Chhattisgarh), as per the conditions given here in below :-

1. Engineering/Technology/Architecture/Design
2. Ayurveda/Health & Allied Sciences/Paramedical/Nursing/Pharmacy
3. Fine Arts/Performing Arts/Visual Arts/Applied Arts
4. Rehabilitation Science
5. Sanskrit Sounding Degrees

Conditions :-

(A) Operations of and admission to the aforesaid faculties/courses shall commence only after relevant Ordinances for the aforesaid faculties/courses are issued in accordance with the provisions contained in clause (m) of sub-section (4) of Section 7 and Section 35 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005.

(B) It shall be mandatory to seek prior permission from UGC, New Delhi and other Central Regulatory Bodies, as per the requirement, before the commencement of the aforesaid faculties/courses.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
BHUVANESH YADAV, Secretary.